



BURARI PUBLIC SCHOOL

A venture with UNIQUE

PERIODIC TEST- 4(2024-2025)

CLASS-8

SUBJECT-HINDI

Date ___ / ___ / ___

समय-1 घंटा

अंक - 20

नाम:अनुक्रमांक..... शिक्षक-हस्ताक्षर

सामान्य निर्देश :-

क) सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।

ख) सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

ग) प्रश्न पत्र दो खंड में विभाजित है। खंड क और,ख

(खंड-क)

प्रश्न-1 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (2)

कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुघड़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व न पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फले ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने-फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है।

प्रश्न

क) जीवन में समय का महत्व क्यों है?

(i) समय काम के लिए प्रेरणा देता है।

(ii) समय की परवाह लोग नहीं करते।

(iii) समय पर किया गया काम सफल होता है।

(iv) समय बड़ा ही बलवान है।

(ख) खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है?

(i) खेत में पौधे नहीं उगते।

(ii) समय पर खेत की रखवाली नहीं करता।

(iii) चिड़ियों का इंतजार करता रहता है।

(iv) खेत पर मौजूद नहीं रहता।।

(ग) चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। इस पदबंध का प्रकार होगा

(i) संज्ञा

(ii) सर्वनाम

(iii) क्रिया

(iv) क्रियाविशेषण

(घ) बादल का बरसना व्यर्थ है, यदि

(i) गरमी शांत न हो।

(ii) फसल को लाभ न पहुँचे

(iii) किसान प्रसन्न न हो

(iv) नदी-तालाब न भर जाएँ

(ङ) गद्यांश का मुख्य भाव क्या है?

(i) बादल का बरसना

(ii) चिड़ियों द्वारा खेत का चुगना

(iii) किसान का पछतावा करना

(iv) समय का सदुपयोग

प्रश्न-2 वाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। (1)

प्रश्न-3 कर्तृ वाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है (2)

प्रश्न-4 अलंकार के कितने भेद हैं वभेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। (2)

प्रश्न-5 उपमेय और उपमान से आप क्या समझते हैं (1)

प्रश्न-6. दिए गए उदाहरण के सामने संबंधित अलंकारों का नाम लिखिए। (2)

1) मृदु मंद मंद मंथर-मंथर।

2) मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों।

3) हाय ! फूल सी बच्ची हुई राख की ढेरी।

4) हनुमान की पूँछ में लगा ना पाई आग

लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग ।

प्रश्न-7 लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(2)

क) अंधी भिखारिन अपना गुजारा किस प्रकार करती थी?

ख) “राष्ट्र धर्म हर धर्म से सर्वोपरि है।”- हमीद ने इस कथन को किस प्रकार सिद्ध किया?

ग) गुरु और गोविंद दोनों में किसका महत्व अधिक है?

घ) सज्जन लोग किसके लिए धन संग्रह करते हैं?

प्रश्न-8 दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दीजिए ?

(6)

क) अंधी बुढ़िया दीन- हीन होते हुए भी सेठ से ज्यादा सहृदय व उदार थी । कैसे ?

ख) वीर अब्दुल हमीद ने फौज में किन-किन पदों पर कार्य किया?

ग) कबीर ने गुरु की महिमा को किन शब्दों में व्यक्त किया है?

घ) धरती का उदाहरण देकर रहीम हमें क्या समझाना चाहते हैं?

प्रश्न-9 दिए गए विषय पर अपने शब्दों में विज्ञापन लिखिए ।

(2)

क) अखबार में देने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन हो।